

• लाइफ स्टाइल...

ऑफिस में बैठे-बैठे



वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच मोटापे और लाइफस्टाइल डिजिजेर का रिस्क काफी हाई दिखायी देता है। घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करने और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी के कारण लोगों के शरीर का वजन बढ़ने लगता है और कमर के आसपास फैट जमा होने लगता है। बता दें कि बेली फैट और कमर के आसपास की चर्ची कई तरह की बीमारियों का रिस्क सीधे-सीधे बढ़ा देती है। हार्ट डिजिजेर, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉइड और डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियों का रिस्क बढ़ाने और उनसे जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ाने के लिहाज से मोटापा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है।

► ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी में लोग या तो सुबह



नाश्ता नहीं करते या बहुत कम या अनहेल्दी चीजें नाश्ते में खा लेते हैं। इससे उन्हें दिन में बार-बार भूख लगती है और चिप्स, बिस्किट, चाय, समोसे जैसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। क्रेविंग्स से बचने के लिए सुबह अच्छी तरह नाश्ता करें और उसके बाद ही ऑफिस के लिए निकलें। इससे आपका पेट देर तक भरा रहेगा और आप अनहेल्दी फूड्स नहीं खाएंगे।

► दिन की शुरुआत नारियल पानी पीकर करें। इसकी जगह आप कोई शर्बत भी पी सकते हैं या कोई फल का सकते हैं। इससे आपकी थकान, सुस्ती और पेट फूलने की समस्याएं कम हो सकतीं।

► काम के बीच हल्की-फुल्की भूख लगने पर चिप्स खाने की बजाय आप ऐसी चीजों का सेवन करे जो हेल्दी हों, पौष्टिक हों और जिससे आपका पेट भरे। भूंगी हुई मूंगफली के दाने, आम, घर पर बनी मटरी या केला खाएं। इससे भूख शांत होगी और आपको एनर्जी भी मिलेगी।

• सेहत...

बुबुल बवाली पेट बढ़ाएं ये



आधुनिक समय में हम में से कई लोग अपने बढ़ते शुगर लेवल से काफी ज्यादा परेशान हैं। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने से कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही समस्याएं शामिल होती हैं। अगर आप शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके लिए हेल्दी आहार का सेवन करना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। इन हेल्दी आहार में कुछ भीगे ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हैं। जी हाँ, रोजाना कुछ ड्राई फ्रूट्स को भिंगोकर खाने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। इन ड्राई फ्रूट्स में भीगे अंजीर भी शामिल हैं। जी हाँ, भीगे अंजीर का सेवन करने से आप अपने शरीर में काफी हद तक शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में—

► रात भर पानी में भिंगोए हुए अंजीर का सुबह खाली पेट सेवन करने से शरीर में काफी हद तक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी अच्छा विकल्प होता है।


► दरअसल, भीगे हुए अंजीर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। साथ ही यह हाई फाइबर का अच्छा सोर्स है। जब आप अंजीर को रात भर पानी में भिंगोते हैं, तो उनमें फाइबर की मात्रा बढ़ सकती है। यह पाचन और शरीर में ब्लड स्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। यह ब्लड में ग्लूकोज की रिहाई को धीमा कर देता है। ऐसे में शुगर को कंट्रोल करने में यह काफी प्रभावी हो सकता है।

► कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अंजीर इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इंसुलिन प्रतिरोध से बचने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसपर और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। रात भर पानी में भिंगोए गए अंजीर खाने से ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने में भी काफी फायदा हो सकता है।

► रातभर पानी में अंजीर को भिंगोकर खाने से काफी लाभ हो सकता है। इसके लिए 2 से 3 अंजीर तें। इसे रातभर पानी में भिंगोकर छोड़ दें। सुबह इसे खाली पेट खाएं। इससे काफी हद तक शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है।

• शरीर के लिए...

विटामिन डी...



विटामिन डी शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। यह शरीर को मैसेज भेजने का काम करता है। विटामिन डी की मदद से विमाग शरीर के अलग-अलग हिस्सों को संदेश भेजने का काम करता है। इसीलिए जब शरीर में विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है तो मेटल हैल्थ पर भी इसका असर दिखायी देने लगता है। विटामिन डी कम हो जाने से शरीर में डोपामाइन कैमिकल का स्तर कम होने लगता है। इससे डिप्रेशन की समस्या बढ़ा सकती है। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या होती है उनके लिए विटामिन डी की कमी बहुत परेशानी भरी हो सकती है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से अल्जाइमर की बीमारी का रिस्क बढ़ा सकता है।



आहो आहो

ऑफिस और घर के काम के बढ़ते प्रेशर के कारण जब वह अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है।

आजकल लाइफस्टाइल हर किसी का खराब होता जा रहा है, ना तो लोग शारीरिक मेहनत इतनी कर पा रहे हैं और न ही अच्छा खाना खा पा रहे हैं। जब ये समस्याएं होने लगती हैं, तो इसके कारण सबसे पहले शरीर का वजन बढ़ने लगता है और अगर समय रहते हैं इस पर रोकथाम न लगाई जाए तो ये बढ़ा हुआ वजन एक समय पर आकर मोटापा बन जाता है। ऐसा ही कुछ जया (बदला हुआ नाम) के साथ हुआ। ऑफिस और घर के काम के बढ़ते प्रेशर के कारण जब वह अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है।

● भैंसिंह और योग भी जरूरी-जिस प्रकार

शारीरिक फिटनेस जरूरी है, उसी प्रकार शरीर की मानसिक फिटनेस भी जरूरी है। अगर आप शरीर का वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि मानसिक मेहनत करना भी जरूरी है। सरल शब्दों में कहें तो बांडी को फिट रखें के लिए मेटल हैल्थ को फिट रखना भी जरूरी है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन व योग जरूर करना चाहिए।

● घर पर बनी सारी चीजें हेल्दी नहीं-जब भी

शरीर का वजन बढ़ा शुरू हो गया।

● साथ ही ऑफिस के

काम के प्रेशर में ठीक से

खाना न खा

पाना और फिर

कभी दोस्तों के

साथ मिलकर

बाहर का खाना

खा लेना,

जिसके कारण

शरीर का वजन बढ़ते-बढ़ते

मोटापे की तरफ

चला गया। लेकिन

ऐसा भी नहीं है

कि जब

मोटापा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल

करना नामुमकिन हो जाता है। लाइफस्टाइल और

डाइट से जुड़ी कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखकर बढ़ते वजन पर कंट्रोल पाया जा सकता है।

● शरीर के लिए रोज एक घंटा निकालना-

आर शरीर को फिट रखना है तो यह आदत

डालनी सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार रोजाना

खाने के लिए हम अपनी दिनचर्या से 3

घंटे बचा सकते हैं।

● बाहर खाना

की आदत छोड़ना-मोटापा बढ़ने का सबसे ज्यादा

कारण आमतौर पर बाहर का खाना ही होता है।

जब आप घर से बाहर खा खाने लगा जाते हैं, तो उसमें फैट ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर खा खाना आमतौर पर डीप फ्राइड और ज्यादा मसाले वाला होता है, जो शरीर का वजन तेजी से बढ़ाता है। शरीर का वजन पर रोक लगाने के लिए इन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

● साभार : हेसा

की सलाह दी जाती है। लेकिन

जरूरी नहीं है कि

घर पर बनी सारी चीजें हेल्दी हों।

क्योंकि रिफाइंड

ऑयल और

रिफाइंड शुगर

(चीजी) से बनी

ज्यादातर चीजें

अनहेल्दी होती हैं,

जो आपकी सेहत

को नुकसान

पहुंचा सकती है।

इसलिए इनका

सेवन कम ही

मात्रा में करना

चाहिए।

● बाहर खाना

की आदत छोड़ना-मोटापा बढ़ने का सबसे ज्यादा

कारण आमतौर पर बाहर का खाना ही होता है।

जब आप घर से बाहर खा खाने लगा जाते हैं, तो उसमें फैट ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर खा खाना आमतौर पर डीप फ्राइड और ज्यादा मसाले वाला होता है, जो शरीर का वजन तेजी से बढ़ाता है। शरीर का वजन पर रोक लगाने के लिए इन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

● बाहर खाना

की आदत छोड़ना-मोटापा बढ़ने का सबसे ज्यादा

कारण आमतौर पर बाहर का खाना ही होता है।

जब आप घर से बाहर खा खाने लगा जाते हैं, तो उसमें फैट ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर खा खाना आमतौर पर डीप फ्राइड और ज्यादा मसाले वाला होता है, जो शरीर का वजन तेजी से बढ़ाता है। शरीर का वजन पर रोक लगाने के लिए इन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

● साभार : हेसा

की आदत छोड़ना-मोटापा बढ़ने का सबसे ज्यादा

कारण आमतौर पर बाहर का खाना ही होता है।

जब आप घर से बाहर खा खाने लगा जाते हैं, तो उसमें फैट ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर खा खाना आमतौर पर डीप फ्राइड और ज्यादा मसाले वाला होता है, जो शरीर का वजन तेजी से बढ़ाता है। शरीर का वजन पर रोक लगाने के लिए इन फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

● बाहर खाना

की आदत छोड़ना-मोटापा बढ़ने का सबसे ज्यादा

कारण आमतौर पर बाहर का खाना ही होता है।

जब आप घर से बाहर खा खाने लगा जाते हैं, तो उसमें फैट ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर खा खाना आमतौर पर डीप फ्राइड और ज्यादा